

IIM Raipur's ePGP Program Shines Bright, Professionals Converge for Campus Immersion Learning

IIM Raipur successfully launched the fourth batch of its much awaited ePGP Campus Immersion Programme on 13th May 2024. For nearly 200 working people from a variety of industries and backgrounds, it was the beginning of a life-changing adventure.






The Executive Post Graduate Programme (ePGP) 4th Batch, which consists of three parts, has assembled at IIM Raipur for a six-day immersion learning session from May 13–18, 2024. 198 participants from a variety of industries, such as IT services, financial services, and news & media, have gathered to begin this unique educational experience, and the campus is excited.

On the first day of the Campus Immersion Programme, there were several interesting events that promoted teamwork and improved the educational process. With a lively group photo to start the week, the tone was set for collaborative participation. Ice-breaking activities helped attendees engage in meaningful conversation, which helped to create a positive atmosphere for networking and information sharing.



Participants may look forward to a variety of educational opportunities, including stimulating Guest Lectures, workshops on specific subjects, and cultural activities like the much anticipated "B4 Got Talent" Cultural Programme on Saturday. A programme dinner and panel discussions with professionals from the business are also scheduled to offer insightful information and chances for networking.

In Inner Pages

-  ePGP Immersion Programme
-  Faculty Publications
-  Alumni
-  Research Seminar
-  IIM Raipur in Media

Prof. Ram Kumar Kakani, Director of IIM Raipur, shared his perspective on the significance of the program, remarking, "IIM Raipur is proud to host such a dynamic cohort of professionals for the Campus Immersion Program. This initiative reflects our commitment to fostering excellence in management education and empowering working professionals to achieve their full potential. I extend my best wishes to all participants for a rewarding and transformative learning experience."

The ePGP chairperson at IIM Raipur, Dr. Dhananjay Bapat, shared his excitement about the immersive learning environment by saying, "A key component of our ePGP curriculum is the Campus Immersion Programme, which offers participants a distinctive combination of academic rigour and real-world experience. We are dedicated to fostering the abilities of our varied group and providing them with the knowledge and understanding required to succeed in their specialized industries."

With the arrival of the fourth ePGP Batch, the campus is buzzing with enthusiasm and expectations for the days filled with learning.

Our Vision & Mission



Vision

"To become a premier management institution that inspires thought leadership through scholarship and teaching by incorporating an ethos of inquiry, consciousness, and innovation".



Mission

"To provide a learning centric environment that nurtures management thought through research and practice to create future leaders".

Faculty Publications

Mishra, Ashok. Kumar., **Panda, Pradiptarathi**, Pradhan, Subhendu Kumar., Panda, Ajaya Kumar, & Smark, Ciorstan. (2024). Uncertainties and Dynamic Connectedness Among Sectors: A Case of the USA, India, France, Germany and Russia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 18(3), 168-201. DOI <http://dx.doi.org/10.14453/aabfj.v18i3.10>



Abstract: This study examines the connectedness among the sectoral indices for the USA, India, France, Germany and Russia stock markets pre and post-COVID-19. We use the Diebold and Yilmaz spillover index to examine the study's objectives. This study finds that volatility spillover is higher during COVID-19 than before COVID-19. In addition, the volatility transmission across the sectors demonstrated mixed results regarding net volatility receivers and transmitters. However, the degree of transmission is higher for the net volatility receivers than for the net volatility transmitters. This study will help policymakers draft related policies to immunise their economy and market from spillover contagions of international markets during varying pandemic scenarios. This study would also help potential investors, including foreign institutional investors, diversify their portfolios based on the sectors with net volatility transmitters and receivers.

Panda, Pradiptarathi., Chari, Latha., and Smark, Ciorstan (2024). Greening Indian Financial Markets for Sustainable Development. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 18(3), pp 1-6. DOI: <http://dx.doi.org/10.14453/aabfj.v18i3.01>

Abstract: This article summarizes the recent developments in India's securities markets regulations, instruments, and intermediaries. It documents the latest and first-ever initiatives in the Indian securities markets such as the implementation of the T+1 settlement cycle, introducing social stock exchange with Zero Coupon and Zero principal bonds, a stronger framework for green debt securities through blue, green, and yellow bonds. The article also dwells upon the regulations related to Business Responsibility and Sustainable Reporting (BRSR), and ESG disclosures and ratings aimed at setting up an efficient market structure by strengthening the governance system. The fourth annual international capital markets conference was organized to foreground India's multiple challenges and to encourage policy discussion about the latest developments in the Indian securities market. A summary of relevant papers presented in the conference and published in this issue is provided at the end of the article.

Char, Latha., Kohli, Rasmeet., and **Panda, Pradiptarathi.** (2024). Why Regulatory Restraints are not Enough to Contain Retail Trading in F&O. Published on 15 May 2024. available at Mint Newspaper. <https://www.livemint.com/money/personal-finance/why-regulatory-restraints-are-not-enough-to-contain-retail-trading-in-fo-11715753488790.html>

Abstract: In India, the critical factor contributing to the attractiveness of options is “the embedded leverage that allows traders to take large exposures with minimum upfront cash” (Reserve Bank of India's Financial Stability Report, December 2023), resulting in the bulk of intraday cash players moving to index option products. The other factors contributing to this increase may be the democratization of market access and low-cost access to analytics, tools and information for retail investors and brokers. Constructive use of technological advancements supported by artificial intelligence has helped, to some extent, level the playing

field for retail investors. From a regulatory perspective, this unprecedented surge in retail participation is welcome, but at the same time, it is a cause for concern. The concerns relate to whether a derivative as a product is suitable for retail investors, whether it is adequately protected, and whether it will sustain the risks/potential losses that may accrue to it. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman recently echoed this concern during an event at the BSE. She pointed out that an unchecked explosion in retail trading in futures and options (F&O) can create future challenges for the markets, investor sentiment and also for household finances.

IIM Raipur celebrated the International Workers' Day



Indian Institute of Management Raipur (IIM Raipur) celebrated International Labour Day on May 1st, 2024, as a tribute to the hard work of dedicated workers who contribute significantly to the institute's growth. The event, held at the Auditorium on the institute's premises, was organized by the IIM Raipur Campus Club Committee - Sangwari.

The program commenced with the ceremonial lighting of the lamp by Prof. Ram Kumar Kakani, the esteemed Director of IIM Raipur, alongside several employees and workers of the institute. This symbolic gesture marked the initiation of a day dedicated to acknowledging and honoring the relentless efforts of the workers, encouraging them to continue their contributions towards building a brighter future. Throughout the event, the audience was treated to various cultural performances presented by the talented workers of IIM Raipur. From captivating poetry recitals to



mesmerizing musical performances and dynamic dance routines, including the vibrant Chhattisgarhi dance, a spirited Ramayan skit, and soulful songs, the cultural segment showcased the diverse talents within the IIM community.

As a token of appreciation for their hard work and dedication, each worker was presented with a memento, symbolizing the institute's gratitude for their invaluable contributions. Col. (Dr.) Harindra Tripathi (Retd.), the Chief Administrative Officer of IIM Raipur, shed light on the history and significance of May Day and elaborated on the pivotal role of trade unions in the Indian context, underscoring the importance of recognizing and upholding the rights of workers.

The event culminated with Shri. Abhijit Barman, a member of the campus club, delivering a heartfelt vote of thanks, expressing gratitude to all participants and organizers for their efforts in making the celebration a resounding success.

Alumni

On the dated 25th May 2024, in Talk series, The Speaker: Dr. Pradiptarathi Panda, Assistant Professor (Finance & Accounts), IIM Raipur, talked to What lies ahead for the Indian Financial Market?

Research Seminar



The Research Office organizes a Research Seminar every Friday of every month. These seminars are attended by faculty members, post-doctoral students and doctoral students interested in presenting their research work. Last month, the following faculty members, along with visiting



guests, have presented their research work which is being shared in the table below.

S.No.	Date	Category	Speaker	Title
1	10-May-24	Research Seminar	Prof. Jithin P	GVC Participation and Financial Development: Divergent Effects in Developing and Developed Economies
2	31-May-24	Research Seminar	Prof. Shishank	Bridging Innovation Management in Entrepreneurial leadership: A case from Indian Film Industry
			Ms. Manisha Darabar	
			Prof. Navjot Sandhu	
			Dr. Sara Gracey	
3	31-May-24	Research Workshop and Seminar Series	Mr. Swadhin Padhy	Enabling Social Change through Humanizing Managerial Decision Making
			Dr. Jyoti Bachani	

आइआईएम में कर्मियों ने नृत्य, नाटक, गीत की दी प्रस्तुति

भा.लिन प्रबंध संस्थान में आंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम का शुरुआत आइआईएम के निदेशक डॉ. राम कुमार शर्मा के कर्मचारियों और शिक्षकों के साथ मिलकर धारा प्रस्तुत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत भविष्य के निर्माण में शिक्षकों का प्रमुख योगदान है। शिक्षकों के अत्यधिक प्रयास को स्वीकार करते हैं और उनका सम्मान करने के लिए एक दिन को चिन्हित किया गया है।



कार्यक्रम में भागीदार गान-गीत, लोकगीत और हनुमान के वेश में हस्तगति।

भविष्य में एमएसएमई होंगे डिजिटल: बोस

सिटी रिपोर्टर, रायपुर

रायपुर आइआईएम में "एमएसएमई के लिए डिजिटलीकरण का मार्गदर्शन: वर्तमान और भविष्य" पर लेखक प्रोग्राम रखा गया। इसमें टाटा टेलेसर्विसेज के एमएसएमई संन्चालन प्रमुख जीवजीत बोस ने अपनी बात रखी। उन्होंने सूझ, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) के विकास और उनके भविष्य को आकार देने वाले डिजिटलीकरण मॉडल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के लिए डिजिटल रूप से सक्षम बनने की आवश्यकता है, जिससे नए नवाचार करते रहना चाहिए। इस को बढ़ावा मिल सके। डिजिटल को बढ़ावा देने में टेक्निकल सपोर्ट भी महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इन पर एमएसएमई को जोर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि भविष्य में एमएसएमई में केवल पूरी तरह से डिजिटलीकरण होगा, बल्कि प्रतिक्रिया और लचीलता को रखने के लिए उन तकनीकों को लागू करने के लिए एमएसएमई को लगातार नवाचार करते रहना चाहिए। इस दौरान ईश्वरभादुरी के अध्यक्ष प्रो. धर्मेन्द्र भादुरी, प्रो. अर्चना पराशर व अन्य मौजूद थे।



आइआईएम ने शुरु की एजीक्यूटिव कोचिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेस

अनुसंधान सिंह रायपुर

आइआईएम ने शुरु की एजीक्यूटिव कोचिंग एंड एडवाइजरी सर्विसेस के प्रॉब्लम सॉल्व करेगे प्रोफेसर्स पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के

इन एरिया में एक्सपर्ट देगे एडवाइज लाइफ कोचिंग

कोचिंग पर बहस करने वाले कर्मचारियों को सहायता प्रदान की जाएगी। इनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट और नौकरी कोडों के लिए पाठ्यक्रम दिया जाएगा।

इसमें स्वयंसेवक और फिजिशियन, कोचिंग, रिटायर और अप्रैण्टिस विकास सॉल्यूशन के लिए चर्चा करने पर सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रोग्राम्स और विज्ञान कोचिंग

विज्ञान और आर्ट्स कोचिंग को लेकर भी चर्चा करने के लिए एमएसएमई के प्रोफेसर्स को सहायता प्रदान की जाएगी।



साय मंत्रिमंडल की आइआईएम में आज से ट्रेनिंग

देशभर से अलग-अलग विषयों के प्रोफेशनल्स को किया गया है आमंत्रित

आइआईएम कैंपस में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु होगा आज से

नवभागाध्यक्ष रायपुर

छात्रों के लिए विद्युत् संचार प्रसारण के मंत्री डॉ. विनीत कुमार प्रसाद का पुत्र मिश्र के साथ ही सुरासन का गुरु प्रशिक्षण 31 मई से 1 जून तक रहेगी। आइआईएम रायपुर के कैंपस में रायपुर सरकार के मंत्रियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु होगा।

बताया गया है कि राज्य सरकार के मंत्री पहले दिन विद्युत् प्रबंधन का पाठ पढ़ेंगे। आइआईएम इंटर के प्रोफेसर सिद्धार्थ डू, रसमी लोक विद्युत् व अर्थशास्त्र विषय पर जानकारी देंगे। दूसरे दिन ट्रेनिंग का शुरुआत होगा।

देश के विद्युत् प्रबंधन पर चर्चा होगी। डेरा निरूपण विषय पर चर्चा होगी। भीष्म सिंह इस विषय पर मंत्रियों का ट्रेनिंग सत्र शुरू करेंगे। प्रोफेसर शर्मा चंद्र कृष्ण शर्मा पर अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रोफेसर शर्मा चंद्र कृष्ण शर्मा पर अपनी प्रस्तुति देंगे। प्रोफेसर शर्मा चंद्र कृष्ण शर्मा पर अपनी प्रस्तुति देंगे।

एनआईटी से लेकर आइआईएम तक, संस्थानों ने साझा की भविष्य के लिए अपनी योजनाएं

रायपुर। आइआईएम के 75 वें पूर्ण दशक के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें से एक है 'एनआईटी से लेकर आइआईएम तक, संस्थानों ने साझा की भविष्य के लिए अपनी योजनाएं' कार्यक्रम।

इस कार्यक्रम में एनआईटी के अध्यक्ष प्रो. अशोक कुमार और आइआईएम के अध्यक्ष प्रो. धर्मेन्द्र भादुरी ने अपने-अपने संस्थानों के भविष्य के लिए अपनी योजनाएं साझा कीं।

प्रो. अशोक कुमार ने कहा कि एनआईटी के भविष्य के लिए अपनी योजनाएं साझा करके, हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं और एक-दूसरे को मदद कर सकते हैं।

प्रो. धर्मेन्द्र भादुरी ने कहा कि आइआईएम के भविष्य के लिए अपनी योजनाएं साझा करके, हम एक-दूसरे से सीख सकते हैं और एक-दूसरे को मदद कर सकते हैं।



आइआईएम में मंत्री बनेंगे छात्र, मिलेगा गुड गवर्नेंस का प्रशिक्षण

रायपुर। आइआईएम में मंत्री बनेंगे छात्र, मिलेगा गुड गवर्नेंस का प्रशिक्षण।

राज्य सरकार की ओर से मंत्री बनेंगे छात्र, मिलेगा गुड गवर्नेंस का प्रशिक्षण।

राज्य सरकार की ओर से मंत्री बनेंगे छात्र, मिलेगा गुड गवर्नेंस का प्रशिक्षण।

राज्य सरकार की ओर से मंत्री बनेंगे छात्र, मिलेगा गुड गवर्नेंस का प्रशिक्षण।

राज्य सरकार की ओर से मंत्री बनेंगे छात्र, मिलेगा गुड गवर्नेंस का प्रशिक्षण।

सफल आंत्रप्रेन्योर बनने 6पी को फॉलो करना जरूरी : सोनी

सिटी रिपोर्टर, रायपुर

आइआईएम में प्रबंधन के कर्मियों को सफल आंत्रप्रेन्योर बनने के लिए 6पी फॉलो करना जरूरी है।

आइआईएम में प्रबंधन के कर्मियों को सफल आंत्रप्रेन्योर बनने के लिए 6पी फॉलो करना जरूरी है।

आइआईएम में प्रबंधन के कर्मियों को सफल आंत्रप्रेन्योर बनने के लिए 6पी फॉलो करना जरूरी है।

आइआईएम में प्रबंधन के कर्मियों को सफल आंत्रप्रेन्योर बनने के लिए 6पी फॉलो करना जरूरी है।

IIM Raipur's EPGP batch 3 kicks off II campus immersion prog

Central Chronicle News

RAIPUR: The Executive Post Graduate Program in Management (EPGP) Batch 3 at the Indian Institute of Management (IIM Raipur) has commenced its second campus immersion program from May 27, 2024. This program marks the beginning of an enriching and transformative experience for the participants. The EPGP Batch 3 comprises a diverse group of professionals, with 82% male and 18% female participants from various industries including engineering, technology, engineering, science, arts, and management agencies. The participants embarked on a substantial experiential learning journey, ranging from 20 months to over 61 months, and represent a wide age range from 25 years to over 45 years. The cohort includes professionals from MNCs, banking and financial institutions, government bodies, self-employment, and corporate entities, both from India and abroad, including the USA, UAE, UK, Singapore, Korea, and Kenya, fostering a global learning environment.

The program is a partnership between IIM Raipur and the Government of Chhattisgarh, supported by various stakeholders. The program is a partnership between IIM Raipur and the Government of Chhattisgarh, supported by various stakeholders.



समाज को लाभ पहुंचाने टैकनीकी जरूरी

सिटी रिपोर्टर, रायपुर

आइआईएम में प्रबंधन के कर्मियों को समाज को लाभ पहुंचाने के लिए टैकनीकी जरूरी है।

आइआईएम में प्रबंधन के कर्मियों को समाज को लाभ पहुंचाने के लिए टैकनीकी जरूरी है।

आइआईएम में प्रबंधन के कर्मियों को समाज को लाभ पहुंचाने के लिए टैकनीकी जरूरी है।

आइआईएम में प्रबंधन के कर्मियों को समाज को लाभ पहुंचाने के लिए टैकनीकी जरूरी है।



Concept and Compilation: Dr. C K Swain, Librarian
Graphics & Design: Shri Satish Kumar Narang, Library



Address: Indian Institute of Management Raipur, Atal Nagar, P. O.- Kurru (Abhanpur)
Raipur (C.G.)- 493661



Phone: (+91) 771-2474 639

Fax: (+91) 771-2474 639



www.iimraipur.ac.in Email: newsletter@iimraipur.ac.in